

Raja Mansingh Tomar Music & Arts University, Gwalior (M.P.)

CHOICE BASED CREDIT SYSTEM (CBCS)

Yearly Grading Scheme

B.A. I YEAR Regular

2022-23

Total Teaching hours- 36 week x 6 = 216 Days. Total Credits- 36 x 30 =1080

Subject cod	Subject Nature	Mid term with Attendance	End Term	Total Mark %	Minimum Passing Mark %
Group-A	Core Subject – Music				
C1-101	Science of Music	30%	70%	100%	33%
C1-102	Applied Principal of Indian Music	30%	70%	100%	33%
C1-103	Practical one (with nss camp)	30%	70%	100%	33%
Group-B	Elective open-1 LITERATURE any one following for teaching availability (HINDI/ENGLISH/SANSKRIT)	30%	70%		
E1-101	THEORY-1	30%	70%	100%	33%
E1-102	THEORY-2	30%	70%	100%	33%
	Elective open-2- SOCIAL SCIENCE	30%	70%		
	any one following for teaching availability (HISTORY/PHILOSOPHY)	30%	70%		
E2-101	THEORY-I	30%	70%	100%	33%
E2-102	THEORY-II	30%	70%	100%	33%
Group- C	FOUNDATION COURSE (Compulsory)	30%	70%		
F-HM-101	HINDI & MORAL VALUES - I	05	30	35	33%
F-HM-102	ENGLISH LANGUAGE - II	05	30	35	33%
F-HM-103	ENVIRONMENTAL STUDY- III	05	25	30	33%
	GRAND Total			600	

राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय ग्वालियर (म.प्र.)
बी.ए. प्रथम वर्ष नियमित पाठ्यक्रम
(गायन/स्वरवाद्य प्रथम प्रश्न पत्र)
(संगीत का विज्ञान/ Science of Music)

समय :-3 घण्टे

आंतरिक	-30
न्यूनतम	-10
वि.वि. पूर्णांक	-70
न्यूनतम	-23

इकाई-1

1. संगीत, नाद, श्रुति, स्वर (शुद्ध, विकृत, चल, अचल),वादी, संवादी, अनुवादी, विवादी बाइस श्रुतियों में वर्तमान सप्तक की स्वर स्थापना, सप्तक (मंद्र, मध्य, तार), वर्ण, अलंकार, (पल्टा), स्थायी, अन्तरा, संचारी आभोग की परिभाषा।
2. संगीतोपयोगी ध्वनि की विशेषताएँ—
तीव्रता, तारता, गुण, कालमान, उक्त सन्दर्भ में कंपन, कम्प विस्तार, आवृत्ति, उपस्वर, का परिचय।

इकाई-2

1. राग एवं थाट की परिभाषा व तुलना, दस थाटों का परिचय,
2. आश्रयराग, वादी, संवादी, अनुवादी, विवादी, वर्जित स्वर, आरोह-अवरोह, राग स्वरूप (पकड), राग की जाति (औडव, षाडव व सम्पूर्ण) का अध्ययन।

इकाई-3

1. ध्रुपद, धमार, ख्याल, तराना, चतुरंग, लक्षणगीत, स्वरमालिका (सरगम) मसीतखानी व रजाखानी गत का परिचय।
2. शास्त्रीय संगीत, सुगम संगीत एवं लोक संगीत का ज्ञान तथा गीत, गजल, होरी का परिचय एवं महत्व।

इकाई-4

1. गायन के परिक्षार्थियों के लिए तानपुरा तथा वाद्य के परिक्षार्थियों के लिए अपने-अपने वाद्य का सामान्य परिचय तथा उनके विभिन्न अवयवों का सचित्र वर्णन। साथ ही उनके तारों को विभिन्न स्वरों में मिलाने की जानकारी।
2. संगीत में शिक्षण की विधि गुरु षिष्य परंपरा एवं महाविद्यालय संगीत शिक्षा का तुलनात्मक विवेचन।

इकाई-5

1. गायक और वादक के गुण-दोष, काकू आदि शब्द भेद का (संगीत रत्नाकर के आधार पर) अध्ययन।
2. पंडित विष्णु दिगम्बर पलुस्कर, पंडित विष्णु नारायण भातखण्डे, अमीर खुसरो, राजा मानसिंह तोमर, स्वामी हरिदास एवं तानसेन का जीवन परिचय तथा संगीत के क्षेत्र में उनका योगदान।

राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय ग्वालियर (म.प्र.)
बी.पी.ए. प्रथम वर्ष नियमित पाठ्यक्रम
(गायन/स्वरवाद्य द्वितीय प्रश्न पत्र)

(संगीत के क्रियात्मक सिद्धांत/Applied Principles of Indian Music)

समय :-3 घण्टे

आंतरिक	-30
न्यूनतम	-10
वि.वि. पूर्णांक	-70
न्यूनतम	-23

इकाई-1

1. पाठ्यक्रम के राग, यमन, भैरव, भूपाली, खमाज, काफी, वृन्दावनीसारंग, दुर्गा, बिलावल या अल्हैया बिलावल का शास्त्रीय परिचय एवं तुलनात्मक अध्ययन।

इकाई-2

1. निम्न (अ) एवं (ब) को भातखण्डे स्वरलिपि पद्धति में लिखने का अभ्यास-

(अ) गायन के परीक्षार्थियों के लिए-

पाठ्यक्रम के रागों यमन, भैरव, भूपाली, खमाज, काफी, वृन्दावनीसारंग, दुर्गा, बिलावल या अल्हैया बिलावल में स्वरमालिका और लक्षणगीत।

(ब) स्वर वाद्य के परीक्षार्थियों के लिए-

पाठ्यक्रम के रागों में से किसी एक राग में एक मध्यलय अथवा रजाखानी गत अथवा द्रुतलय की रचना (आलाप, तान, तोड़ो सहित)

इकाई-3

1. लय (विलम्बित, मध्य, द्रुत), ठाह, दुगुन, मात्रा, ताल, विभाग, सम, ताली, खाली, ठेका, आवर्तन की जानकारी।
2. तबले का संक्षिप्त परिचय। तबले की बनावट व उसके विभिन्न अंगों का सचित्र वर्णन।

इकाई-4

1. त्रिताल, एकताल, दादरा, कहरवा, झपताल, चौताल और धमार तालों का परिचय ठाह सहित ताल-लिपि में लेखन।
2. मींड, कण, खटका मुर्की, आलाप, तान, बोल (मिजराब/जवा के बोल) प्रहार (आकर्ष/अपकर्ष), सूत, जमजमा, और तोड़ों का पारिभाषिक परिचय।

इकाई-5

1. पंडित विष्णु नारायण भातखण्डे स्वरलिपि तथा ताललिपि का परिचय।
2. लगभग 400 शब्दों में संगीत संबंधी किसी विषय पर निबंध।

राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय ग्वालियर (म.प.)
बी.पी.ए. प्रथम वर्ष नियमित पाठ्यक्रम
गायन/स्वरवाद्य प्रायोगिक:- प्रदर्शन एवं मौखिक
(Demonstration & viva Voice)

समय :- 30 मिनट

आंतरिक	-30
न्यूनतम	-10
वि.वि. पूर्णांक	-70
न्यूनतम	-23

1. पूर्व पाठ्यक्रमों की पुनरावृत्ति एवं किन्हीं दो थाटों में दस-दस अलंकारों का अभ्यास। गायन के विद्यार्थियों हेतु पाठ्यक्रम के रागों में स्वरमालिका और लक्षणगीत का गायन।
2. पाठ्यक्रम के राग- यमन, भैरव, भूपाली, खमाज, काफी, वृन्दावनीसारंग, दुर्गा, बिलावल या अल्हैया बिलावल।
 - अ. पाठ्यक्रम के प्रत्येक राग में मध्यलय ख्याल/रजाखानी गत/मध्यलय रचना का पांच तानों सहित प्रदर्शन।
 - ब. पाठ्यक्रम के किसी एक राग में ध्रुपद तथा एक तराने का गायन अथवा किसी एक राग में तीनताल से भिन्न अन्य ताल में रचना का अपने वाद्य पर प्रदर्शन।
3. आकाशवाणी द्वारा मान्य वन्दे मातरम्/भजन/देशभक्ति गीत का स्वरलय में गायन अथवा वादन या किसी धुन को अपने वाद्य पर प्रस्तुत करना।
4. पाठ्यक्रम के निम्नलिखित तालों का हाथ से ताली देकर प्रदर्शन- एकताल, दादरा, कहरवा, झपताल, चौताल, धमार तथा त्रिताल की ठाह एवं दुगुन का अभ्यास।

राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय ग्वालियर (म.प्र.)
बी.पी.ए. प्रथम वर्ष नियमित पाठ्यक्रम
गायन/स्वरवाद्य प्रायोगिक:—Stage Performance
(प्रायोगिक :-2 मंच प्रदर्शन)

समय :- 20 मिनट

आंतरिक	-30
न्यूनतम	-10
वि.वि. पूर्णांक	-70
न्यूनतम	-23

कल्चरल एक्टिविटीज जैसे- सरस्वती वंदना, गणेश वंदना, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, देश भक्ति गीत, छोटा ख्याल, लक्षण गीत, सरगम गीत का मंच प्रदर्शन।

संदर्भ ग्रंथ:

1. हिन्दुस्तानी क्रमिक पुस्तक मालिका भाग 2 से 6 – पं. विष्णु नारायण भातखण्डे
2. संगीत प्रवीण दर्शिका – श्री एल. एन. गुणे
3. संगीत शास्त्र दर्पण – श्री शांति गोवर्धन
4. संगीत विशारद – श्री लक्ष्मीनारायण गर्ग
5. सितार मलिका –श्री भगवतषरण शर्मा
6. अभिनव गीतांजलि भाग 1 से 5 –पं. श्री रामाश्रय झा
7. संगीत बोध – श्री शरदचन्द्र पराजंप्पे
8. संगीत वाद्य – श्री लालमणि मिश्र
9. हमारे संगीत रत्न – श्री लक्ष्मीनारायण गर्ग
10. चतुरंग – श्री सज्जनलाल भट्ट
11. संगीत शास्त्र – श्री तुलसीराम देवांगन
12. राग शास्त्र – डॉ. गीता बैनर्जी
13. संगीत मणि – डॉ. महारानी शर्मा
14. प्रणव भारती भाग 1 से 7 – पं. ओमकारनाथ ठाकुर
15. संगीतांजली भाग 1 से 7 – पं. ओमकारनाथ ठाकुर

Raja Mansingh Tomar Music & Arts University, Gwalior (M.P.)
CHOICE BASED CREDIT SYSTEM (CBCS)
Yearly Grading Scheme
B.A. II YEAR Regular
2022-23

Total Teaching hours- 36 week x 6 = 216 Days. Total Credits- 36 x 30 =1080

Subject cod	Subject Nature	Mid term with Attendance	End Term	Total Mark %	Minimum Passing Mark %
Group-A	Core Subject – Music				
C1-101	Science of Music	30%	70%	100%	33%
C1-102	Applied Principal of Indian Music	30%	70%	100%	33%
C1-103	Practical one (with nss camp)	30%	70%	100%	33%
Group-B	Elective open-1 LITERATURE any one following for teaching availability (HINDI/ENGLISH/SANSKRIT)	30%	70%		
E1-101	THEORY-1	30%	70%	100%	33%
E1-102	THEORY-2	30%	70%	100%	33%
	Elective open-2- SOCIAL SCIENCE	30%	70%		
	any one following for teaching availability (HISTORY/PHILOSOPHY)	30%	70%		
E2-101	THEORY-I	30%	70%	100%	33%
E2-102	THEORY-II	30%	70%	100%	33%
Group- C	FOUNDATION COURSE (Compulsory)	30%	70%		
F-HM-101	HINDI & MORAL VALUES - I	05	30	35	33%
F-HM-102	ENGLISH LANGUAGE - II	05	30	35	33%
F-HM-103	ENVIRONMENTAL STUDY- III	05	25	30	33%
	GRAND Total			600	

राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय ग्वालियर (म.प्र.)

बी.ए. द्वितीय वर्ष (नियमित पाठ्यक्रम)
(गायन/स्वरवाद्य प्रथम प्रश्न पत्र)
(संगीत का विज्ञान/Science of Music 1)

समय :-3 घण्टे

आंतरिक	-30
न्यूनतम	-10
वि.वि. पूर्णांक	-70
न्यूनतम	-23

इकाई-1

1. टोन, मेजर टोन, माइनर टोन, सेमीटोन, अनुनाद, डोल, उपस्वर (स्वयंभु स्वर), प्रतिध्वनि, तरंगमान तथा तरंग वेग, ग्रंथि-प्रतिग्रंथि, स्वर अंतराल प्रमुख स्वर संवादो का अध्ययन।
2. स्केल-नेचुरल स्केल, डायटोनिक स्केल तथा टेम्पर्ड स्केल।

इकाई-2

1. हिन्दुस्तानी एवं कर्नाटक सप्तका का तुलनात्मक अध्ययन।
2. पूर्वांग-उत्तरांग राग। वादी, संवादी स्वर से राग गायन के समय का संबंध, संधिप्रकाश राग, अध्वदर्शक स्वर, परमेले, प्रवेशक राग की जानकारी।

इकाई-3

1. राग के ग्रह आदि दस लक्षण। आविर्भाव, तिरोभाव, नायकी, गायकी, वाग्गेयकार की परिभाषा लक्षण एवं प्रकार।
2. गमक की परिभाषा और उसके प्रकार।

इकाई-4

1. मुगल काल से अब तक का संगीत का संक्षिप्त इतिहास।
2. सदारंग-अदारंग, गोपाल नायक, बैजू बख्शू हस्सू हद्दू खाँ, भास्कर बुआ बखले, बाबा अलाउद्दीन खाँ, उ. हाफिज अली खाँ एवं उ. इनायत खाँ तथा पं. पन्नालाल घोष का जीवन परिचय तथा संगीत के क्षेत्र में उनका योगदान।

इकाई-5

1. तत् (तंत्री), अवनद्ध, घन एवं सुषिर वाद्य वर्गीकरण का अध्ययन।
2. वितत् वाद्य का स्पष्टीकरण। गायन के विद्यार्थी के लिए तानपूरा का एवं वाद्य के विद्यार्थी हेतु अपने-अपने वाद्य का संक्षिप्त ऐतिहासिक अध्ययन।

राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय ग्वालियर (म.प्र.)
बी.ए. द्वितीय वर्ष (नियमित पाठ्यक्रम)
(गायन/स्वरवाद्य द्वितीय प्रश्न पत्र)
(संगीत के क्रियात्मक सिद्धांत / Applied Principles of Indian Music 2)

समय :-3 घण्टे

आंतरिक	-30
न्यूनतम	-10
वि.वि. पूर्णांक	-70
न्यूनतम	-23

इकाई-1

1. निम्नलिखित रागों का शास्त्रीय अध्ययन एवं पिछले पाठ्यक्रम के रागों का तुलनात्मक अध्ययन—
बागेश्री, बिहाग भीमपलासी, आसावरी, कामोद, केदार, देश, भैरवी, हमीर और पटदीप।

इकाई-2

2. निम्न अ एवं ब को भातखण्डे स्वरलिपि पद्धति में लिखने का अभ्यास।
(अ) गायन के परीक्षार्थियों के लिए –
 - पाठ्यक्रम के पाठ्यक्रम के राग बागेश्री, बिहाग भीमपलासी, आसावरी, कामोद, केदार, देश, भैरवी, हमीर और पटदीप। किन्हीं पांच रागों में विलम्बित ख्याल। (आलाप तथा तानों सहित)
 - पाठ्यक्रम के प्रत्येक राग में एक मध्यलय ख्याल। (आलाप तथा तानों सहित) (ब) स्वर वाद्य के परीक्षार्थियों के लिए –
 - पाठ्यक्रम के किन्हीं पांच रागों में (आलाप, तानों/ताडो सहित) एक-एक विलम्बित गत अथवा मसीतखानी गत अथवा विलम्बित ख्याल। (गायकी अथवा तंत्रकारी सहित)
 - पाठ्यक्रम के प्रत्येक राग में एक मध्यलय अथवा रजाखानी गत अथवा द्रुतलय की रचना। (आलाप तथा तानो/तोडों सहित)

इकाई-3

1. तान एवं तान के प्रकार।
2. बोल आलाप, बोलतान, कृन्तन, जोड़, झाला, तारपरन तथा लागडाट की परिभाषा।

इकाई-4

1. त्रिताल, एकताल, दादरा, कहरवा, झपताल, चौताल, धमार, तिलवाड़ा रूपक, तीव्रा तथा सूलताल के ठेकों का ज्ञान एवं दुगनु, चौगुन में लिखने का अभ्यास।
2. दुमरी, कजरी, चैती और कव्वाली का परिचय।

इकाई-5

1. पंडित विष्णु दिगम्बर पलुस्कर स्वरलिपि व ताललिपि पद्धति का अध्ययन।
2. संगीत संबंधी विषय पर लगभग 400 शब्दों में निबंध लेखन।

राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय ग्वालियर (म.प्र.)
बी.ए. द्वितीय वर्ष नियमित पाठ्यक्रम
गायन/स्वरवाद्य प्रायोगिक:- 1 प्रदर्शन एवं मौखिक
(Demonstration & viva Voice)

समय :-30 मिनट

आंतरिक	-30
न्यूनतम	-10
वि.वि. पूर्णांक	-70
न्यूनतम	-23

1. पूर्व पाठ्यक्रमों की पुनरावृत्ति पाठ्यक्रम के राग बागेश्री, बिहाग भीमपलासी, आसावरी, कामोद केदार, देस, भैरवी, हमीर और पटदीप।
 - अ. पाठ्यक्रम के किन्ही पाँच रागों में एक-एक विलम्बित ख्याल (आलाप-तान सहित) का गायन अथवा विलम्बित रचना/मसीतखानी गत (गायकी अथवा तंत्रकारी सहित) का प्रदर्शन।
 - ब. पाठ्यक्रम के प्रत्येक राग में मध्यलय ख्याल/रजाखानी गत/मध्यलय रचना का पाँच तानों सहित प्रदर्शन।
 - स. पाठ्यक्रम के विभिन्न रागों में एक ध्रुपद, एक धमार (दुगुन चौगुन सहित) तथा एक तराना का गायन अथवा पाठ्यक्रम के किसी एक राग में तीनताल से भिन्न अन्य ताल में रचना का तानों सहित अपने वाद्य पर प्रदर्शन।
 - द. गायन के विद्यार्थी हेतु पाठ्यक्रम के रागों में स्वरमालिका, लक्षण गीत का गायन।
2. भजन/देशभक्ति गीत या सुगम सगीत की रचना का स्वरलय में गायन अथवा वाद्य पर प्रदर्शन या किसी धुन को अपने वाद्य पर प्रस्तुत करना।
3. पाठ्यक्रम के निम्नलिखित तालों का हाथ से ताली देकर ठाह एवं दुगुल में बोलकर प्रदर्शन- त्रिताल, एकताल, दादरा, कहरवा, झपताल, चौताल, धमार, तिलवाड़ा, रूपक, तीव्रा तथा सूलताल।

राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय ग्वालियर (म.प्र.)
बी.ए. द्वितीय वर्ष नियमित पाठ्यक्रम
गायन/स्वरवाद्य प्रायोगिक:-2 मंच प्रदर्शन
वोकल/इंस्ट्रूमेंट (स्वर वाद्य) टेक्निक 2 (Stage Performance)

समय :-20 मिनिट

आंतरिक	-30
न्यूनतम	-10
वि.वि. पूर्णांक	-70
न्यूनतम	-23

1. परीक्षार्थी द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम में से कोई एक राग रचना का (विस्तृत गायकी/तन्त्रकारी सहित) प्रदर्शन।
2. परीक्षक द्वारा दिये गये सुगम संगीत पर आधारित रचना अथवा धुन का प्रदर्शन।

संदर्भ ग्रंथ:

- | | | |
|---|---|----------------------------|
| 1. हिन्दुस्तानी क्रमिक पुस्तक मालिका भाग 2 से 6 | — | पं. विष्णु नारायण भातखण्डे |
| 2. संगीत प्रवीण दर्शिका | — | श्री एल. एन. गुणे |
| 3. संगीत शास्त्र दर्पण | — | श्री शांति गोवर्धन |
| 4. संगीत विशारद | — | श्री लक्ष्मीनारायण गर्ग |
| 5. सितार मालिका | — | श्री भगवतशरण शर्मा |
| 6. अभिनव गीतांजलि भाग 1 से 5 | — | श्री रामाश्रय झा |
| 7. संगीत बोध | — | श्री शरदचन्द्र परांजपे |
| 8. संगीत वाद्य | — | श्री लालमणि मिश्र |
| 9. हमारे संगीत रत्न | — | श्री लक्ष्मीनारायण गर्ग |
| 10. चतुरंग | — | श्री सज्जनलाल भट्ट |
| 11. संगीत शास्त्र | — | श्री तुलसीराम देवांगन |
| 12. राग शास्त्र | — | डॉ. गीता बैनर्जी |
| 13. संगीत मणि | — | डॉ. महारानी शर्मा |
| 14. प्रणव भारती भाग 1 से 7 | — | पं. ओमकारनाथ ठाकुर |
| 15. संगीतांजली भाग 1 से 7 | — | पं. ओमकारनाथ ठाकुर |

Raja Mansingh Tomar Music & Arts University, Gwalior (M.P.)
CHOICE BASED CREDIT SYSTEM (CBCS)

Yearly Grading Scheme
B.A. III YEAR Regular

2022-23

Total Teaching hours- 36 week x 6 = 216 Days. Total Credits- 36 x 30 =1080

Subject cod	Subject Nature	Mid term with Attendance	End Term	Total Mark %	Minimum Passing Mark %
Group-A	Core Subject – Music				
C1-101	Science of Music	20%	80%	100%	33%
C1-102	Applied Principal of Indian Music	20%	80%	100%	33%
C1-103	Practical one (with nss camp)	20%	80%	100%	33%
Group-B	Elective open-1 LITERATURE any one following for teaching availability (HINDI/ENGLISH/SANSKRIT)				
E1-101	THEORY-1	20%	80%	100%	33%
E1-102	THEORY-2	20%	80%	100%	33%
	Elective open-2- SOCIAL SCIENCE				
	any one following for teaching availability (HISTORY/PHILOSOPHY)				
E2-101	THEORY-I	20%	80%	100%	33%
E2-102	THEORY-II	20%	80%	100%	33%
Group- C	FOUNDATION COURSE (Compulsory)				
F-HM-101	HINDI & MORAL VALUES - I	05	30	35	33%
F-HM-102	ENGLISH LANGUAGE - II	05	30	35	33%
F-HM-103	BASIC OF COMPUTER - III	05	25	30	33%
	GRAND Total			600	

राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय ग्वालियर (म.प्र.)
बी.ए. तृतीय वर्ष नियमित पाठ्यक्रम
(गायन/स्वरवाद्य प्रथम प्रश्न पत्र)
(संगीत का विज्ञान/Science of Music 1)

समय :-3 घण्टे

पूर्णांक :-80

इकाई-1

1. गांधर्व गान, मार्गी तथा देशी संगीत का सामान्य परिचय।
2. निबद्ध और अनिबद्ध गान का सामान्य परिचय। अनिबद्ध के अतंगत रागालप्ति एवं रूपकालप्ति के भेद-प्रभेदों का अध्ययन।

इकाई-2

1. ग्राम-मूर्च्छना के लक्षण और भेदों का अध्ययन। ग्राम मूर्च्छना तथा मेल और थाट की तुलना।
2. भरत एवं शारंगदेव की श्रुति.स्वर व्यवस्था तथा चतुःसारणा विधि।

इकाई-3

1. वीणा के तार पर पं. अहाबेल द्वारा शुद्ध-विकृत स्वरों की स्थापना विधि एवं पं. श्री निवास द्वारा उसका स्पष्टीकरण।
2. ग्राम राग, देशीराग का वर्गीकरण, राग रागिनी वर्गीकरण का परिचय।

इकाई-4

1. थाट-राग वर्गीकरण तथा शुद्ध, छायालग, और संकीर्ण राग वर्गीकरण का अध्ययन।
2. पं. व्यंकटमखी के 72 मेल, उत्तर भारतीय सगीत में एक सप्तक से 32 थाटों की निर्माण विधि एवं एक थाट से 484 रागों की उत्पत्ति।

इकाई-5

1. घराने की परिभाषा एवं स्पष्टीकरण। ख्याल के ग्वालियर, आगरा, दिल्ली, पटियाला, जयपुर और किराना घरानों का सामान्य परिचय तथा सेनिया घराने की सामान्य जानकारी।
2. उ. बड़े गुलाम अली खां, पं. गजाननराव जोशी, पं. रविशंकर, उं. विलायत खाँ, पं. वी.जी. जोग, उ. बिस्मिलाह खाँ और पं. हरिप्रसाद चौरसिया का जीवन परिचय एवं संगीत के क्षेत्र में उनका योगदान।

राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय ग्वालियर (म.प्र.)
बी.ए. तृतीय वर्ष नियमित पाठ्यक्रम
(गायन/स्वरवाद्य द्वितीय प्रश्न पत्र)
(संगीत के क्रियात्मक सिद्धांत/ Applied Principles of Indian Music 2)

समय :-3 घण्टे

पूर्णांक :-80

इकाई-1

1. निम्नलिखित रागों का शास्त्रीय परिचय एवं पिछले पाठ्यक्रम के रागों का तुलनात्मक अध्ययन—
जैजैवन्ती, मालकौस, जौनपुरी, छायानट, बहार, तोड़ी, रामकली, तिलककामोद और पूरियाधनाश्री।

इकाई-2

2. निम्न अ एवं ब को भातखण्डे स्वरलिपि पद्धति में लिखने का अभ्यास।
(अ) गायन के परीक्षार्थियों के लिए—
 - पाठ्यक्रम के किन्हीं छः रागों में (आलाप तथा तानो सहित) विलम्बित रचना का लिखने का अभ्यास।
 - पाठ्यक्रम के प्रत्येक राग में एक मध्यलय रचना का (आलाप तथा तानों सहित) लिखने का अभ्यास।
(ब) स्वर वाद्य के परीक्षार्थियों के लिए—
 - पाठ्यक्रम के रागों में विलम्बित गत अथवा मसीतखानी गत अथवा विलम्बित ख्याल का (आलाप तानो/ताडो सहित) लेखन।
 - पाठ्यक्रम के प्रत्येक राग में एक मध्यलय अथवा रजाखानी गत अथवा द्रुतलय की रचना का (आलाप तथा तानो/ताडो सहित) प्रदर्शन।

इकाई-3

1. आड, कुआड, लयो की जानकारी।
2. त्रिताल, एकताल, दादरा, कहरवा, झपताल, चौताल, धमार, तिलवाडा, रूपक, तीव्रा, सूलताल, आडाचौताल, दीपचंदी तथा झूमरा तालों का परिचय उन्हें तिगुन, चौगुन में लिखने का अभ्यास।

इकाई-4

1. स्वरलिपि एवं उसकी उपयोगिता। पंडित विष्णु नारायण भातखण्डे स्वरलिपि के अतिरिक्त भारत में प्रचलित अन्य स्वरलिपियों का सामान्य ज्ञान।
2. स्टाफ नोटेशन (स्वरलिपि) पद्धति का सामान्य परिचय। स्टाफ नोटेशन स्वरलिपि में पाठ्यक्रम के रागों के आरोह-अवरोह व पकड़ का इस पद्धति में लेखन।

इकाई-5

1. हार्मनी और मेलाडी का सामान्य अध्ययन।
2. लगभग 500 शब्दों में संगीत संबंधी किसी विषय पर निबंध लेखन।

राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय ग्वालियर (म.प्र.)
बी.ए. तृतीय वर्ष नियमित पाठ्यक्रम
गायन/स्वरवाद्य प्रायोगिक:- 1 प्रदर्शन एवं मौखिक
(Demonstration & Viva Voice)

समय :-30 मिनिट

पूर्णांक :-80

1. पूर्व पाठ्यक्रमों की पुनरावृत्ति एवं पाठ्यक्रम के राग-जैजैवन्ती, मालकौस, जौनपुरी, पूरिया, छायानट, बहार, तोड़ी, बसन्त, रामकली, तिलककामोद और पूरियाधनाश्री।
तुलनात्मक अध्ययन की दृष्टि से पिछले पाठ्यक्रम के रागों की पुनरावृत्ति।
 - अ. पाठ्यक्रम के किन्हीं छः रागों में एक-एक विलम्बित ख्याल (आलाप-तान सहित) का गायन अथवा विलम्बित रचना/मसीतखानी गत (गायकी अथवा तंत्रकारी सहित) का प्रदर्शन।
 - ब. पाठ्यक्रम के प्रत्येक राग में मध्यलय ख्याल/रजाखानी गत/मध्यलय रचना का पाँच तानों सहित प्रदर्शन
 - स. पाठ्यक्रम के विभिन्न रागों में एक ध्रुपद, एक धमार (दुगुन, तिगुन व चौगुन सहित) तथा एक तराना का गायन। अथवा किसी एक राग में तीनताल से पृथक ताल में रचना का गायकी अथवा तंत्रकारी सहित अभ्यास।
2. भजन/देशभक्ति गीत या सुगम संगीत की रचना का स्वरलय में गायन अथवा वाद्य पर प्रदर्शन या किसी धुन को अपने वाद्य पर प्रस्तुत करना।
3. पाठ्यक्रम के निम्नलिखित तालों का हाथ से ताली देकर बोलकर प्रदर्शन-
 - अ. त्रिताल, एकताल, दादरा, कहरवा, झपताल, चौताल, धमार, तिलवाडा, रूपक, तीव्रा, सलू ताल, आडाचौताल, दीपचदी एवं झूमरा तालों की ठाह दुगुन एवं चौगुन।
 - ब. त्रिताल, एकताल, दादरा, कहरवा का तिगुन में प्रदर्शन।

राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय ग्वालियर (म.प्र.)
बी.ए. तृतीय वर्ष नियमित पाठ्यक्रम
गायन/स्वरवाद्य प्रायोगिक:-2 मंच प्रदर्शन
वोकल/इंस्ट्रूमेंट (स्वर वाद्य) टेक्निक 2 (Stage Performance)

समय :-20 मिनट

पूर्णांक :-80

1. परीक्षार्थी द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम में से कोई एक राग रचना का (विस्तृत गायकी/तन्त्रकारी भजन सहित) प्रदर्शन।
2. परीक्षक द्वारा दिये ध्रुपद/धमार में से किसी एक की गायकी/ तन्त्रकारी के साथ प्रस्तुति।

संदर्भ ग्रंथ :-

- | | | |
|---|---|----------------------------|
| 1. हिन्दुस्तानी क्रमिक पुस्तक मालिका भाग 2 से 6 | — | पं. विष्णु नारायण भातखण्डे |
| 2. संगीत प्रवीण दर्शिका | — | श्री एल. एन. गुणे |
| 3. संगीत शास्त्र दर्पण | — | श्री शांति गोवर्धन |
| 4. संगीत विशारद | — | श्री लक्ष्मीनारायण गर्ग |
| 5. सितार मालिका | — | श्री भगवतषरण शर्मा |
| 6. अभिनव गीतांजलि भाग 1 से 5 | — | श्री रामाश्रय झा |
| 7. संगीत बोध | — | श्री शरदचन्द्र परांजपे |
| 8. संगीत वाद्य | — | श्री लालमणि मिश्र |
| 9. हमारे संगीत रत्न | — | श्री लक्ष्मीनारायण गर्ग |
| 10. चतरंग | — | श्री सज्जनलाल भट्ट |
| 11. संगीत शास्त्र | — | श्री तुलसीराम देवांगन |
| 12. राग शास्त्र | — | डॉ. गीता बैनर्जी |
| 13. संगीत मणि | — | डॉ. महारानी शर्मा |
| 14. प्रणव भारती भाग 1 से 7 | — | पं. ओमकारनाथ ठाकुर |
| 15. संगीतांजली भाग 1 से 7 | — | पं. ओमकारनाथ ठाकुर |